

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1] नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 3—जनवरी 9, 2015 (पौष 13, 1936)

No. 1] NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 3—JANUARY 9, 2015 (PAUSA 13, 1936)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 2

[PART I—SECTION 2]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]

[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Govt. Officers issued by the Ministries of the Govt. of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

योजना आयोग

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण

नई दिल्ली—110001, दिनांक 3 दिसम्बर 2014

सं. ए—19011/129/14—यू.आई.डी.ए.आई.1—कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के का. झा. सं. 7/4/2014—ई. ओ. (एम. एम.—1) दिनांक 03.07.2014 के तहत सूचित नियुक्ति संबंधी केबिनेट कमेटी की मंजूरी तथा भारत संचार निगम लि. (बी.एस.एन.एल.) के रिलीविंग ऑर्डर सं. टी.डी./एस.जी.—2014/जे.ए.जी./पार्ट दिनांक 24.11.2014 के अनुसरण में, श्री नागुला सत्यनारायण (आई.टी.एस. 1994) ने, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यू.आई.डी.ए.आई.) के क्षेत्रीय कार्यालय, हैदराबाद में, वेतन बैंड 37,400—67,000/— (पी.बी.—4) + 8,700/— रु. ग्रेड पे, में दिनांक 28.11.2014 (पूर्वाह्न) से, प्रतिनियुक्ति आधार पर सहायक महानिदेशक (ए.डी.जी.) के रूप में अपना कार्यभार संभाल लिया है। उनकी यह तैनाती पांच वर्ष के लिए या अगले आदेश होने तक (जो भी पहले हो) की जाती है।

रजनीश झा, उपनिदेशक (स्था.)

सं. ए—19012/87/14—यू.आई.डी.ए.आई.1—भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, योजना आयोग, नई दिल्ली के पत्र सं. ए—12013/21/(पी.एस./हैडक्वार्टर)/09—यू.आई.डी.ए.आई. दिनांक 20.10.2014 तथा इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय कला केंद्र, नई दिल्ली के कार्यालय आदेश संख्या 226/2014 तथा संदर्भ संख्या 1/42/91—एस.डी./ए.एम. दिनांक 01.12.2014 के अनुसरण में, श्री डी.सी. शर्मा ने, दिनांक 1.12.2014 (अपराह्न) से भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (मुख्यालय) में, वेतन बैंड रु. 9300—34,800/— +

4,800/- रु. ग्रेड-पे में, प्रतिनियुक्ति आधार पर निजी सचिव के रूप में अपना कार्यभार संभाल लिया है। उनकी यह तैनाती तीन वर्ष के लिए या अगले आदेशों तक (जो भी पहले हो) की जाती है।

रजनीश झा, उपनिदेशक (स्था.)

सं. ए-20011/44/13-यू.आई.डी.ए.आई.1—भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, योजना आयोग, नई दिल्ली के पत्र सं. ए-12013/21/पी.एस./हैडक्वार्टर/09-यू.आई.डी.ए.आई. दिनांक 17.10.2014, के अनुसरण में, श्री मोहम्मद आरीफ ने दिनांक 17.10.2014 (अपराहन) से भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (मुख्यालय) में, वेतन बैंड रु. 9,300-34,800/- + 4,800/- रु. ग्रेड पे, में प्रतिनियुक्ति आधार पर, निजी सचिव के रूप में, अपना कार्यभार संभाल लिया है। उनकी यह तैनाती 21.02.2016 तक या अगले आदेशों तक (जो भी पहले हो) की जाती है।

रजनीश झा, उपनिदेशक (स्था.)

दिनांक 15 दिसम्बर 2014

सं. ए-19011/130/2014-यू.आई.डी.ए.आई.1—भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, योजना आयोग, नई दिल्ली के पत्र सं. ए-12013/21/ए.डी.जी. (रॉची)/09-यू.आई.डी.ए.आई. दिनांक 13.08.2014 तथा बी.एस.एन.एल. (टी.डी.एम. सासाराम कार्यालय) के ज्ञापन संख्या क्यू.बी.-253/एस.एस.आर./डी.एस./40 दिनांक 17.11.2014 के अनुसरण में, श्री देव शंकर, (आई.टी.एस. 1998) ने, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के क्षेत्रीय कार्यालय, रॉची में, वेतन बैंड 37,400-67,000/- + 8,700/- रु. ग्रेड पे, में, दिनांक 19.11.2014 (पूर्वाहन) से सहायक महानिदेशक (ए.डी.जी.) के पद का कार्यभार संभाल लिया है। उनकी यह तैनाती तीन वर्ष के लिए या अगले आदेश होने तक (जो भी पहले हो) की जाती है।

रजनीश झा, उपनिदेशक (स्था.)

सं. ए-19011/131/2014-यू.आई.डी.ए.आई.1—कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (इस्टैबलिशमेंट ऑफिसर कार्यालय) के कार्यालय ज्ञापन संख्या 7/6/2014-ई.ओ. (एम.एम.-1) दिनांक 31.10.2014 तथा प्रधान रक्षा लेखा नियंत्रक, बंगलौर कार्यालय के कार्यालय आदेश सं. 428 तथा फाईल सं. ए.एन./I/1929/21/ प्रतिनियुक्ति/पत्राचार/खण्ड-X, दिनांक 28.11.2014 के अनुसरण में, श्रीमती अंजलि इलीस शंकर (आई.डी.ए.एस:1998) ने, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, के क्षेत्रीय कार्यालय, बंगलौर में, वेतन-बैंड रु. 37,400-67,000/- + 8,700/- रु. ग्रेड-पे में, दिनांक 1.12.2014 (पूर्वाहन) से केंद्रीय स्टाफिंग स्कीम के अंतर्गत प्रतिनियुक्ति आधार पर, सहायक महानिदेशक (ए.डी.जी.) के रूप में अपना कार्यभार संभाल लिया है। उनकी यह तैनाती पांच वर्ष के लिए या अगले आदेश होने तक (जो भी पहले हो) की जाती है।

रजनीश झा, उपनिदेशक (स्था.)

भारत निर्वाचन आयोग सचिवालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 26 नवम्बर 2014

सं. ए-19/जी-ए/86—श्री आर. बालाकृष्णन, भा.प्र.से. (उड़ीसा:84) जिनकी सेवाएं कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 31.07.2013 के का.ज्ञा.सं. 14/3/2013-ईओ (एसएम. I) के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग को सौंपी गई थी, को संवर्ग में पदोन्नति का लाभ लेने के आधारों पर पत्र सं. 14/3/2013-ईओ. (एसएम. I) दिनांक 12.11.2014 के संदर्भ में, भारत निर्वाचन आयोग सचिवालय में उप निर्वाचन आयुक्त के पद से संवर्ग में रिपोर्ट करने के लिए दिनांक 30.11.2014 (अपराहन) से एतद्वारा कार्यमुक्त किया जाता है।

बी. सी. पात्रा, अवर सचिव

दिनांक 16 दिसम्बर 2014

सं. 193/22/04/2014(केके)—अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर भारत निर्वाचन आयोग में अवर सचिव, श्रीमती कृष्णा कुमारी दिनांक 30.11.2014 (अपराहन) से सेवानिवृत्त हो गई हैं।

बी. सी. पात्रा, अवर सचिव

दिनांक 18 दिसम्बर 2014

सं. 193/22/03/2014(एसी)—अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर भारत निर्वाचन आयोग में सचिव, श्री आशीष चक्रवर्ती दिनांक 30.11.2014 (अपराहन) से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

बी. सी. पात्रा, अवर सचिव

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 16 दिसम्बर 2014

सं. 24020/310/1999-आईपीएस-II—राष्ट्रपति यह निदेश देते हैं कि उत्तर प्रदेश संवर्ग (बैच-1991) के अखिल भारतीय पुलिस सेवा के सदस्य डॉ. किरन डी. जाधव को अखिल भारतीय पुलिस सेवा (छुट्टी) नियमावली, 1955 के नियम 7(2) (ए) के अनुसार, दिनांक 19.09.2007 से भारतीय पुलिस सेवा से त्याग-पत्र दिया हुआ माना जाता है।

जी. सी. यादव, उप सचिव (पुलिस)

नई दिल्ली, दिनांक 17 दिसम्बर 2014

सं. आई-14011/10/2014-आई पी एस-1(I)—भारतीय पुलिस सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 के विनियम 7 के उप विनियम (3) में निहित उपबंधों का प्रयोग करते हुए संघ लोक सेवा आयोग ने दिनांक 12.12.2014 को चयन समिति की दिनांक 03.11.2014 की बैठक में इसके द्वारा बनाई गई 2013 की उस चयन सूची को अनुमोदित कर दिया है जिसमें भारतीय पुलिस सेवा के हिमाचल प्रदेश संवर्ग में कुल 3 मौलिक रिक्तियों को भरे जाने हेतु हिमाचल प्रदेश पुलिस सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों का नाम शामिल किया गया है।

चयन सूची 2013

क्रम सं.	अधिकारियों के नाम (सर्वश्री)	जन्म तिथि
1.	गुरदेव चन्द शर्मा	31.01.1971
2.	विमुक्त रंजन	14.03.1971
3.	अनुपम शर्मा	07.03.1972

हरीश चंद्र राय, अवर सचिव

सं. आई-14011/10/2014-आई पी एस-1(II)—राष्ट्रपति भारतीय पुलिस सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 के विनियम 9 के उप विनियम (1) के साथ पठित भारतीय पुलिस सेवा (भर्ती) विनियम, 1954 के विनियम 9 के उप विनियम (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश राज्य पुलिस सेवा के निम्नलिखित सदस्यों को भारतीय पुलिस सेवा में परिवीक्षा पर नियुक्त करते हैं तथा उन्हें भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग) विनियम, 1954 के विनियम 5 के उप विनियम (1) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश संवर्ग प्रदान करते हैं।

चयन सूची 2013

क्रम सं.	अधिकारियों के नाम (सर्वश्री)	जन्म तिथि
1.	गुरदेव चन्द शर्मा	31.01.1971
2.	विमुक्त रंजन	14.03.1971
3.	अनुपम शर्मा	07.03.1972

2. यह नियुक्तियां अधिसूचना जारी होने की तिथि से प्रभावी होंगी।

हरीश चंद्र राय, अवर सचिव

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 25 नवम्बर 2014

सं. 14013/06/2013-अ.भा.से.-III—भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षा) नियमावली, 1954 के नियम 3-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति भारतीय प्रशासनिक सेवा के महाराष्ट्र राज्य संवर्ग के निम्नलिखित सदस्यों को उनके नामों के समक्ष दर्शाई गए तिथि से भारतीय प्रशासनिक सेवा में स्थायी करते हैं :—

क्रम सं.	अधिकारी का नाम	बैच	स्थायी करने की तारीख
1.	श्री ए. आर. शिंदे	2002	19.01.2013
2.	श्री वी. एन. सूर्यवंशी	2004	17.02.2013

नवनीत मिश्रा, अवर सचिव

दिनांक 11 दिसम्बर 2014

सं. 14013/02/2014—अ.भा.से.—III—भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षा नियमावली, 1954 के नियम 3—क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति, बिहार राज्य संवर्ग के 1999 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के निम्नलिखित सदस्यों को उनके नामों के समक्ष दर्शाई गए तिथि से भारतीय प्रशासनिक सेवा में स्थायी करते हैं :—

क्रम सं.	अधिकारी का नाम सर्वश्री/श्री/श्रीमती	स्थायी करने की तारीख
1.	अरुण देरहगवेन	15.11.2013
2.	खुशीद अहमद	05.11.2013
3.	देवेन्द्र कुमार वर्मा	05.11.2013
4.	घनश्याम प्रसाद दफतयार	05.11.2013
5.	मिथिलेश कुमार सिंह	05.11.2013
6.	अरुण कुमार सिंह	06.11.2013

नवनीत मिश्रा, अवर सचिव

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 15 दिसम्बर 2014

सं. ए-35011/1/2013—एडीईडी—भारत के राष्ट्रपति केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता श्री मोहम्मद फरीद को 14.11.2014 (अपराहन) से 14.11.2017 (अपराहन) तक 3 वर्ष की अवधि के लिए या आगामी आदेशों तक, जो भी पहले हो, प्रतिनियुक्ति आधार पर 6,600/— रु. के ग्रेड वेतन के साथ 15,600—39,100/— के वेतन बैंड-3 में प्रवर्तन निदेशालय, दिल्ली में सहायक विधि सलाहकार के रूप में नियुक्त करते हैं।

वी. श्रीकुमार, अवर सचिव

व्यय विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 18 दिसम्बर 2014

सं. ए-33025/1/2014—एडी.II—राष्ट्रपति, श्रीमती सुधा कृष्णन, आईए एण्ड एस (1983) को 08 दिसम्बर, 2014 के पूर्वाह्न से दो वर्ष की अवधि के लिए अथवा आयोग के कार्यकाल तक अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो पहले हो, एचएजी वेतनमान (67,000—79,000/— रु.) में वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग में व्यय प्रबंधन आयोग में सदस्य सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

जिले सिंह विकल, अवर सचिव

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 27 अक्टूबर 2014

सं. ए-12011/06/2014—प्रशासन-I—श्री सत्य पाल भाटिया, एक सेवानिवृत्त कर्मचारी को ऊपरी आयु सीमा में छूट देते हुए कारपोरेट कार्य मंत्री (श्री अरुण जेटली) के निजी स्टॉफ में पीबी-3 में 15,600—39,100/— रुपए के साथ 6,600/— रुपए के वेतन बैंड में अपर निजी सचिव के रूप में 27 मई, 2014 पूर्वाह्न से नियुक्त किया जाता है।

श्री सत्यपाल सिंह भाटिया की नियुक्ति श्री अरुण जेटली की इच्छा अथवा उनके कारपोरेट कार्य मंत्री के रूप में कार्यकाल के साथ सह-कालिक आधार पर या 14.11.2017 (केन्द्रीय मंत्रियों के निजी स्टाफ में कार्यकाल के 10 वर्ष पूर्ण होने की तारीख) या अगले आदेशों, जो भी पहले हो, तक है।

क्षितीश कुमार, अवर सचिव

दिनांक 13 नवम्बर 2014

सं. ए-12011/06/2014—प्रशा.I—इस मंत्रालय के दिनांक 19.09.2014 के समसंख्यक अधिसूचना में आंशिक संशोधन करते हुए श्री सत्यपाल सिंह रावत, केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के सेवानिवृत्त निजी सचिव को ऊपरी उम्र सीमा में छूट देते हुए

27 मई, 2014 पूर्वाह्न से पीबी-2 9,300—34,800/— रुपए में 4,800/— रुपए के ग्रेड पे सहित कारपोरेट कार्य मंत्री (श्री अरूण जेटली) के निजी कर्मचारी में सहायक निजी सचिव के रूप में नियुक्त किया जाता है।

श्री सत्यपाल सिंह रावत की नियुक्ति श्री अरूण जेटली के प्रसादपर्यंत और उनके कारपोरेट कार्य मंत्री रहते हुए सहकालिक आधार पर अथवा 27.10.2017 तक (वह तारीख जब उनका केन्द्रीय मंत्रियों के निजी कर्मचारी में काम करने का 10 वर्ष पूर्ण होगा) अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, होगी।

क्षितीश कुमार, अवर सचिव

दिनांक 9 दिसम्बर 2014

सं. पी.एफ.जी.(1073)/14—प्रशा.1—राष्ट्रपति सहर्ष, सुश्री अंजुली चिब दुग्गल, आई.ए.एस. (पीबी : 81) को दिनांक 09 दिसम्बर, 2014 के पूर्वाह्न से कारपोरेट कार्य मंत्रालय में विशेष सचिव नियुक्त करते हैं।

क्षितीश कुमार, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 5 दिसम्बर 2014

सं. पी.एफ.जी.(1067)/14—प्रशा.1—राष्ट्रपति, श्री आशीष कुशवाहा (आईटीएस:2001) को केन्द्रीय स्टाफिंग स्कीम के तहत 03 दिसम्बर, 2014 पूर्वाह्न से 02 दिसम्बर 2018 तक चार वर्ष की अवधि के लिए, अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, कारपोरेट कार्य मंत्रालय में उप सचिव नियुक्त करते हैं।

रवि वजीरानी, अवर सचिव

रसायन और उर्वरक मंत्रालय
(उर्वरक विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 22 जुलाई 2014

सं. ए-19011/07/2014—मा.सं.11—राष्ट्रपति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 03.07.2014 के आदेश सं. 3/1/2014—सीएस-1(डी) के अनुसरण में श्री अनिल कुमार वी. पाटिल को दिनांक 16.07.2014 (अपराह्न) से रसायन और उर्वरक मंत्रालय के संयुक्त संवर्ग में 8,700/— रुपए के ग्रेड-पे सहित पे-बैंड-4 (रुपए 37,400—67,000/—) में उर्वरक विभाग में निदेशक के रूप में नियुक्त करते हैं।

यशपाल अरोड़ा, अवर सचिव

दिनांक 26 अगस्त 2014

सं. ए-19011/09/2014—मा.सं.11—कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 31.07.2014 के आदेश सं. 4/2/2014—सीएस-1 (घ) के अनुपालन में श्री सत्य मोहन गुप्ता, अवर सचिव को, प्रवर ग्रेड (उप सचिव) में उनकी पदोन्नति होने और तत्पश्चात् व्यय विभाग से स्थानांतरण होने के परिणामस्वरूप, 14.08.2014 (पूर्वाह्न) से रसायन और उर्वरक मंत्रालय के संयुक्त संवर्ग में पे बैंड-3 (15,600—39,100/— रुपए) के साथ ग्रेड पे 7,600/— रुपए में उर्वरक विभाग की नामावली में उप-सचिव के रूप में शामिल किया जाता है।

यशपाल अरोड़ा, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 16 अक्टूबर 2014

सं. ए-12011/04/2011—मा.सं.11—राष्ट्रपति, संयुक्त निदेशक के पद को निदेशक (सीई) के रूप में पुनःपदनामित करते हुए तत्काल प्रभाव से उर्वरक विभाग के सम्बद्ध कार्यालय, उर्वरक उद्योग समन्वय समिति के कार्यालय में श्री गोविन्द गोपाल मित्रा (आईसीएस:95) को उनके सेवाकाल की शेष अवधि के लिए जो 08.12.2016 है अथवा अगला आदेश जारी होने तक, जो भी पहले हो, निदेशक के पद पर नियुक्त करते हैं।

संजय श्रीवास्तव, अवर सचिव

दिनांक 5 नवम्बर 2014

सं. ए-19011/04/2014—मा.सं.11—राष्ट्रपति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 03.11.2014 के आदेश सं. 36/38/2014—ईओ (एसएम-1) के अनुसरण श्री राजीव यादव, भा.प्र.से. (एसएम:81) का उनके धारित पद का अस्थायी पदोन्नति उन्नयन करते हुए

दिनांक 16.10.2014 (अपराहन) से उर्वरक विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में विशेष सचिव और वित्तीय सलाहकार के पद पर नियुक्त करते हैं।

संजय श्रीवास्तव, अवर सचिव

दिनांक 7 नवम्बर 2014

सं. ए-19011/11/2014-एचआर-II—राष्ट्रपति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 23.09.2014 के का.ज्ञा. सं. 33/5/2014-इ.ओ.(एसएम-I) के अनुसरण में श्री सतीश चंद्र आईएएस (एमपी:86) के दिनांक 13.06.2014 अपने केंद्र में समय पूर्व वापिसी के फलस्वरूप रिक्त स्थान पर श्री हीरा लाल सामरिया, आईएएस (एमपी:85) को दिनांक 05.11.2014 (पूर्वाहन) से पे बैंड 37,400—67,000/— रुपए (पीबी-4), में 10,000/— रुपए ग्रेड पे सहित पांच वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक जो भी पहले हो, उर्वरक विभाग में संयुक्त सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

संजय श्रीवास्तव, अवर सचिव

दिनांक 28 नवम्बर 2014

सं. ए-22011/05/2014-मा.सं.II—राष्ट्रपति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 04.07.2014 के आदेश सं. 5/6/2013-सीएस.I (यू) में निहित शर्तों के अधीन श्री यशपाल अरोड़ा, अवर सचिव (तदर्थ) को 04.07.2014 (पूर्वाहन) से प्रवर सूची 2012 के लिए उर्वरक विभाग में नियमित आधार पर अवर सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

संजय श्रीवास्तव, अवर सचिव

सं. ए-22011/05/2014-मा.सं.II—राष्ट्रपति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 04.07.2014 के आदेश सं. 5/6/2013-सीएस.I (यू) में निहित शर्तों के अधीन श्री पुम्जालाल पुलाम्टे, अवर सचिव (तदर्थ) को 04.07.2014 (पूर्वाहन) से प्रवर सूची 2012 के लिए उर्वरक विभाग में नियमित आधार पर अवर सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

संजय श्रीवास्तव, अवर सचिव

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली-110011, दिनांक 2 दिसम्बर 2014

सं. ए-12025/21/2014-के.स्वा.सेवा-IV—राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिश पर डॉ. मीनाक्षी अग्रवाल को केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के गैर-शिक्षण विशेषज्ञ उप-संवर्ग में परीक्षा पर दिनांक 14 अक्टूबर, 2014 के पूर्वाहन से अगले आदेशों तक विशेषज्ञ ग्रेड-II (कनिष्ठ वेतनमान) (सूक्ष्मजीव विज्ञान) के पद पर नियुक्त करते हैं।

ललित कुमार, अवर सचिव

आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी (आयुष) मंत्रालय

नई दिल्ली-110023, दिनांक 14 नवम्बर 2014

सं. ए-19011/5/2010-स्था-II(आयुष)—प्रधान मुख्य वन्य संरक्षक, मणिपुर सरकार के पद पर 80,000/— रुपए (नियत) के शीर्ष वेतनमान में पदोन्नति और साथ ही मणिपुर में वन्य बल के प्रमुख के रूप में भी पदोन्नति के परिणामस्वरूप श्री बाला प्रसाद, आईएएस (एमटी : 83), संयुक्त सचिव, आयुष मंत्रालय को 14 नवम्बर, 2014 अपराहन से आयुष मंत्रालय से कार्यमुक्त किया जाता है।

चंद्र शेखर, अवर सचिव

दिनांक 17 नवम्बर 2014

सं. ए-20010/6/2012-स्था-II(आयुष)—कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 03 नवम्बर, 2014 के पत्र सं. 33/7/72014-ईओ(एसएम-1)(18) के अनुसरण में राष्ट्रपति द्वारा श्री जितेन्द्र शर्मा, आईएएस (पीबी : 84), मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड को 14.11.2014 (अपराहन) से आयुष मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में उनकी प्रतिनियुक्ति की शेष अवधि अर्थात् 07.10.2017 तक अथवा अगले आदेश होने तक नियुक्त किया जाता है।

चंद्र शेखर, अवर सचिव

दिनांक 21 नवम्बर 2014

सं. ए-20010/6/2012-ई-II(आयुष)—कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 03 नवम्बर, 2014 के पत्र सं. 4/2/ 2014—सीएस-I(घ)(खण्ड) के अनुसरण में राष्ट्रपति संघ लोक सेवा आयोग में कार्यरत श्री अंशुमन शर्मा, उप सचिव (तदर्थ) को 18.11.2014 (पूर्वाह्न) से अगले आदेश जारी होने तक आयुष मंत्रालय में उप-सचिव (तदर्थ) नियुक्त करते हैं।

चंद्र शेखर, अवर सचिव

दिनांक 5 दिसम्बर 2014

सं. ए-12011/2/2014-ई-II(आयुष)—राष्ट्रपति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 27 नवम्बर, 2014 के कार्यालय ज्ञापन सं. 4/16/2014-ईओ(एमएम-I) के अनुसरण में, श्री नवदीप रिनवा, भा.प्र.से. (उ.प्र. :1999) को 10 नवम्बर, 2014 से 'पार्श्व पारी' आधार पर आयुष मंत्रालय में आयुष राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री श्रीपाद येसो नाईक) के निजी सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं। यह नियुक्ति निजी सचिव के रूप में पांच साल के कार्यकाल की उनकी शेष अवधि (04.09.2019) तक या मंत्री के साथ सह-समापन आधार पर या मंत्री के निजी सचिव के रूप में उनके काम करने तक या अगले आदेश जारी होने तक, में से जो भी पहले हो, तक होगी।

चंद्र शेखर, अवर सचिव

कृषि मंत्रालय
(कृषि एवं सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 15 दिसम्बर 2014

सं. 4-2/2011-विस्तार—राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिश पर श्री सुधीर कुमार को विस्तार निदेशालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग में वेतनमान 15,600—39,100/— रुपए (वेतन बैंड-3) + 5,400/— रुपए ग्रेड वेतन में सीधी भर्ती के आधार पर विस्तार अधिकारी, जीसीएस, समूह 'क' (राजपत्रित) (अननुसचिवीय) के पद पर दिनांक 05 दिसम्बर, 2014 के पूर्वाह्न से नियुक्त करते हैं।

आर. एस. वर्मा, अवर सचिव

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

नई दिल्ली-110003, दिनांक 12 दिसम्बर 2014

सं. ए-19011/93/2013-स्था.I—राष्ट्रपति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 29 अक्टूबर, 2014 के का.ज्ञा. सं. 4/22/2014-ईओ (एसएम-I) द्वारा मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति के अनुमोदन के फलस्वरूप, डॉ. ललित के. पंवार, आईएएस (राज. : 79) के सचिव, पर्यटन मंत्रालय के रूप में नियुक्ति होने पर डॉ. ललित के. पंवार, आईएएस (राज. : 79) को अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय से 30 अक्टूबर, 2014 (अपराह्न) से कार्यमुक्त करते हैं।

मोहम्मद अफजल, निदेशक (प्रशा.)

रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली-110001, दिनांक 15 दिसम्बर 2014

सं. ईआरबी-I/2007/10/4—श्री आलोक जौहरी, सदस्य यांत्रिक, रेलवे बोर्ड और रेल मंत्रालय में भारत सरकार के पदेन सचिव अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर 30.11.2014 के अपराह्न से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

पी. सी. गजभिये, सचिव
(रेलवे बोर्ड)

सं. ईआरबी-I/2007/10/4—रेलवे बोर्ड के निम्नलिखित अधिकारी अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर 30.11.2014 के अपराह्न से सेवानिवृत्त हो गए हैं :—

- | | |
|------------------------|---------------------|
| (i) श्री वी. के. जैन, | अपर सदस्य (निर्माण) |
| (ii) श्री मदन लाल, | निदेशक |
| (iii) श्री सतीश कुमार, | अनुभाग अधिकारी |

- (iv) श्री सुभाष बैनर्जी, अनुभाग अधिकारी
 (v) श्री जय सिंह पाल सिंह, अनुभाग अधिकारी (हिन्दी)
 (vi) श्रीमती शशि आनन्द, अनुभाग अधिकारी
 (vii) श्रीमती शोभा पसरीचा, निजी सचिव

पी. सी. गजभिये, सचिव
 (रेलवे बोर्ड)

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 10 दिसम्बर 2014

सं. ए-31011/05/2013-सीएलएस.1—राष्ट्रपति, केन्द्रीय श्रम सेवा (सीएलएस) के निम्नलिखित जूनियर टाईम स्केल (जेटीएस) अधिकारियों को 6,600/- रुपए के ग्रेड पे के साथ पीबी-3 (15,600—39,100/- रुपए) के समरूप वेतनमान में नियमित सीनियर टाईम स्केल (एसटीएस) अधिकारियों के रूप में उनके सामने दर्शाई गई तारीख से सहर्ष नियुक्त करते हैं :—

क्रम सं.	अधिकारियों का नाम (श्री/श्रीमती/कु.)	पदोन्नति की तारीख
1.	अमरकान्त गोयल	24.03.2014 (पूर्वाह्न)
2.	टी. के. पंडा	04.03.2014 (पूर्वाह्न)
3.	पी. के. लुकास	07.03.2014 (पूर्वाह्न)
4.	एन. एम. शेटी	06.03.2014 (पूर्वाह्न)
5.	एस. चक्रवर्ती	10.03.2014 (अपराह्न)
6.	पी. गणेशन	28.03.2014 (पूर्वाह्न)
7.	बी. आर. खेमंडु	07.03.2014 (पूर्वाह्न)
8.	पी. एस. फुगाट	04.04.2014 (पूर्वाह्न)
9.	वासदेवी कुंडनै	01.04.2014 (पूर्वाह्न)
10.	ए. के. श्रीवास्तव	11.03.2014 (पूर्वाह्न)
11.	राजा राम	07.03.2014 (पूर्वाह्न)
12.	एन. कृष्णा राव	06.03.2014 (पूर्वाह्न)
13.	एम. एस. मीणा	04.03.2014 (अपराह्न)
14.	ए. के. त्रेहान	08.03.2014 (पूर्वाह्न)
15.	जी. एस. दोरेबुरु	05.03.2014 (अपराह्न)
16.	सुनील कुमार	25.03.2014 (अपराह्न)
17.	आर. के. अग्रवाल	07.03.2014 (पूर्वाह्न)

उपर्युक्त उल्लिखित अधिकारियों की एस टी एस ग्रेड में पदोन्नति श्री बी.बी.सिंह सामंता (सेवानिवृत्त) द्वारा माननीय केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, गुवाहाटी के समक्ष दायर कोर्ट केस सं. ओए सं. 55/2012 और श्री अजय कुमार (सेवानिवृत्त) द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, कलकत्ता के समक्ष दायर कोर्ट केस सं. डब्ल्यू.पी.सी.टी. सं. 15/2012 के निर्णय के अधीन होगी।

एस. के. सिंह, अवर सचिव

PLANNING COMMISSION

UNIQUE IDENTIFICATION AUTHORITY OF INDIA

New Delhi-110001, the 3rd December 2014

No. A-19011/129/14-UIDAI.—In pursuance of approval of Appointments Committee of the Cabinet conveyed by the Department of Personnel & Training vide O.M No. 7/4/2014-EO (MM-I) dated 03.07.2014 and Bharat Sanchar Nigam Limited (BSNL) relieving Order No. TD/SG-2014/JAG/Part dated 24.11.2014, Shri Nagula Satyanarayana (ITS -1994) has assumed the charge of the post of Assistant Director General (ADG) Unique Identification Authority of India, (UIDAI), Regional Office, Hyderabad w.e.f 28.11.2014 (F/N) in the Pay band of Rs. 37400-67000/- (PB-4) plus Grade Pay Rs. 8700/- for a period of five years or until further orders, whichever is earlier.

RAJNISH JHA, Dy. Dir. (Estt)

No. A-19012/87/14-UIDAI.—In pursuance of Unique Identification Authority of India, Planning Commission, New Delhi letter No. A-12013/21(PS/HQ)/09-UIDAI dated 20.10.2014 and Indira Gandhi National Centre for the Arts, New Delhi Office Order No. 226/2014 & reference No. 1/42/91-SD/AM dated 01.12.2014, Shri D.C Sharma has assumed the charge of the post of Private Secretary in HQ, Unique Identification Authority of India, Delhi w.e.f 01.12.2014 (A/N) in the pay band of Rs. 9300-34800 + Grade Pay of Rs. 4800/- on deputation basis for a period of three years or until further orders whichever is earlier.

RAJNISH JHA, Dy. Dir. (Estt)

No. A-20011/44/13-UIDAI.—In pursuance of Unique Identification Authority of India, Planning Commission, New Delhi letter No. A-12013/21(PS/HQ)/09-UIDAI dated 17.10.2014. Shri Mohd Arif has assumed the charge of the post of Private Secretary in HQ, Unique Identification Authority of India, Delhi w.e.f 17.10.2014 (AN) in the pay band of Rs. 9300-34800 + Grade Pay of Rs. 4800/- on deputation basis for a period up to 21.02.16 or until further orders whichever is earlier.

RAJNISH JHA, Dy. Dir. (Estt)

The 9th December 2014

No. A-19011/130/2014-UIDAI.—In pursuance of Unique Identification Authority of India, Planning Commission, New Delhi letter No. A-12013/21/ADG(Ranchi)/09-UIDAI dated 13.08.2014 and BSNL, Office of the TDM, Sasaram, Memo No. QB-253/SSR/D.S/40 dated 17.11.2014 Shri Deo Shankar (ITS:1998) has assumed the charge of the post of Assistant Director General (ADG) in Unique Identification Authority of India, Regional Office Ranchi w.e.f 19.11.2014 (F/N) in the pay band of Rs. 37400-67000+ Grade Pay of Rs. 8700/- on deputation basis for a period of three years or until further orders whichever is earlier.

RAJNISH JHA, Dy. Dir. (Estt)

The 15th December 2014

No. A-19011/131/2014-UIDAI.—In pursuance of Department of Personnel & Training (Office of the Establishment Officer) O.M No. 7/6/2014-EO(MM-I) dated 31.10.2014 and O/o the Principal Controller of Defence Accounts, Bangalore Office Order No. 428 & File No. AN/I/1929/21/Deptn/Corr/Vol X, dated 28.11.2014, Smt Anjali Ellis Shanker (IDAS:1998) has assumed the charge of the post of Assistant Director General (ADG) in Unique Identification Authority of India, Regional Office Bangalore w.e.f 01.12.2014 (F/N) in the pay band of Rs. 37400-67000+ Grade Pay of Rs. 8700/- on deputation under Central Staffing Scheme for a period of five years or until further orders whichever is earlier.

RAJNISH JHA, Dy. Dir. (Estt)

SECRETARIAT OF THE
ELECTION COMMISSION OF INDIA

New Delhi-110001, the 26th November 2014

No. A-19/G-A/86—Shri R. Balakrishnan, IAS (OR:84) whose services were placed at the disposal of the Election Commission of India vide the M/o Personnel, Public Grievances and Pensions, Department of Personnel and Training in pursuance of DoP&T's OM No. 14/3/2013-EO (SM.I), dated 31.07.2013, is hereby relieved from the post of Deputy Election Commissioner in the Secretariat of the Election Commission of India with reference to letter No. 14/3/2013-EO (SM.I) dated 12.11.2014, on grounds of availing the benefit of promotion in the cadre, with effect from 30.11.2014 (A/N), to report to the cadre.

B. C. PATRA, Under Secy.

The 16th December 2014

No. 193/22/04/2014 (KK)—On attaining the age of superannuation, Smt. Krishna Kumari, Under Secretary in the Election Commission of India, has retired from the service with effect from afternoon of 30th November, 2014.

B. C. PATRA, Under Secy.

The 18 th December 2014

No. 193/22/03/2014 (AC)—On attaining the age of superannuation, Sh. Ashish Chakraborty, Secretary in the Election Commission of India, has retired from the service with effect from afternoon of 30th November, 2014.

B. C. PATRA, Under Secy.

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi -1, the 16th December 2014

No. 24020/310/1999-IPS-II—The President is pleased to direct that Dr. Kiran D. Jadhav, a member of the Indian Police Service, borne on the Cadre of Uttar Pradesh (Batch-1991) is deemed to have resigned from the Indian Police Service with effect from 19.09.2007, in terms of Rule 7 (2) (a) of the All India Services (Leave) Rules, 1955.

G. C. Yadav, Dy. Secy. (Police)

New Delhi, the 17th December 2014

No. I-14011/10/2014-IPS.I (I)—In exercise of the provisions contained in sub-regulation (3) of Regulation 7 of the Indian Police Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955, the Union Public Service Commission has on 12.12.2014 approved the Select List of the year 2013 prepared by the Selection Committee in its meeting held on 03.11.2014, containing the names of the following State Police Service Officers of Himachal Pradesh towards filling up of 3 substantive vacancies in the Himachal Pradesh Cadre of Indian Police Service :-

Select List 2013

Sl. No.	Name of the officer (S/Shri)	Date of Birth
1	Gurdev Chand Sharma	31.01.1971
2	Vimukt Ranjan	14.03.1971
3	Anupam Sharma	07.03.1972

HARISH CHANDRA RAI, Under Secy.

No. I-14011/10/2014-IPS.I(II)—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 9 of the Indian Police Service (Recruitment) Rules, 1954, read with sub-regulation (1) of regulation 9 of the Indian Police Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955, the President is pleased to appoint the following members of Himachal Pradesh Police Service to the Indian Police Service on probation and to allocate them to the Himachal Pradesh Cadre under sub-rule (1) of the rule 5 of the Indian Police Service (Cadre) Rules, 1954 :-

Select List 2013

Sl.No.	Name of the officer (S/Shri)	Date of Birth
1	Gurdev Chand Sharma	31.01.1971
2	Vimukt Ranjan	14.03.1971
3	Anupam Sharma	07.03.1972

2. The appointments will take effect from the date of issue of this notification.

HARISH CHANDRA RAI, Under Secy.

MINISTRY OF PERSONNEL, P.G. & PENSIONS
(DEPARTMENT OF PERSONNEL & TRAINING)

New Delhi, the 25th November 2014

No.14013/06/2013 - AIS-III—In exercise of the powers conferred by rule 3-A of the Indian Administrative Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to confirm the following members of the Indian Administrative Service borne on the State Cadre of Maharashtra in the Indian Administrative Service, with effect from the date shown against him:

Sl. No.	Name of the officer S/Sh/Smt.	Batch	Due Date of confirmation
1	Shri A.R.Shinde	2002	19.01.2013
2	V. N. Suryawanshi	2004	17.02.2013

NAVNEET MISRA, Under Secy.

The 11th December 2014

No.14013/02/2014 - AIS-III—In exercise of the powers conferred by rule 3-A of the Indian Administrative Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to confirm the following members of the Indian Administrative Service borne on the State Cadre of Bihar of 1999 batch in the Indian Administrative Service, with effect from the date(s) shown against them:

Sl. No.	Name of the officer S/Sh/Smt.	Due Date of confirmation
1	Arun Derhgawen	05.11.2013
2	Khurshid Ahmad	05.11.2013
3	Devendra Kumar Verma	05.11.2013
4	Ghanshyam Prasad Daftuar	05.11.2013
5	Mithilesh Kumar Singh	05.11.2013
6	Arun Kumar Singh	06.11.2013

NAVNEET MISRA, Under Secy.

MINISTRY OF FINANCE
(DEPARTMENT OF REVENUE)

New Delhi, the 15th December 2014

No. A-35011/1/2013-Ad.ED—The President of India is pleased to appoint Shri Mohd. Fareed, Sr. Public Prosecutor, CBI, as Assistant Legal Advisor, in the Directorate of Enforcement, Delhi, in Pay Band 3 of Rs.15600-39100 + Grade Pay of Rs.6,600/- on deputation basis, for a period of 3 years, w.e.f. 14.11.2014(AN) to 14.11.2017(AN) or until further orders, whichever is earlier.

V. SREEKUMAR, Under Secy.

DEPARTMENT OF EXPENDITURE

New Delhi, the 18th December 2014

No.A-33025/1/2014-Ad.II—The President is pleased to appoint Smt. Sudha Krishnan, IA&AS (1983), as Member Secretary in the Expenditure Management Commission (EMC) in the Ministry of Finance, Department of Expenditure, in the HAG scale of pay (Rs 67000 – 79000) for a period of two years with effect from the forenoon of the 8th December, 2014 or till the term of the Commission or until further orders, whichever is earlier.

ZILEY SINGH VICAL, Under Secy.

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

New Delhi, the 27th October 2014

No.A-12011/06/2014-Ad.I—Shri Satya Pal Bhatia a retired Govt. servant is appointed as Additional Private Secretary in relaxation of upper age limit, on the personal staff of Minister of Corporate Affairs (Shri Arun Jaitley) in the Pay Band of PB-3 ₹.15600-39100 with Grade Pay of ₹.6600/- w.e.f. the forenoon of 27th May, 2014.

The appointment of Shri Satya Pal Bhatia is at the pleasure of and co-terminus with the tenure of Shri Arun Jaitley as Minister of Corporate Affairs or upto 14.11.2017 (the date he will be completing 10 years of working on the personal staff of Union Ministers) or until further orders, whichever is the earliest.

KSHITISH KUMAR, Under Secy.

The 13th November 2014

No.A-12011/06/2014-Ad.I—In partial modification to this Ministry's Notification of even number dated 19.09.2014, Shri Satyapal Singh Rawat a retired Private Secretary of CSSS is appointed as Assistant Private Secretary in relaxation of upper age limit, on the personal staff of Minister of Corporate Affairs (Shri Arun Jaitley) in the Pay Band of PB-2 Rs. 9,300—34,800/- with Grade Pay of Rs. 4,800/- w.e.f. the forenoon of 27th May, 2014.

The appointment of Shri Satyapal Singh Rawat is at the pleasure of and co-terminus with the tenure of Shri Arun Jaitley as Minister of Corporate Affairs or upto 27.11.2017 (the date he will be completing 10 years of working on the personal staff of Union Ministers) or until further orders, whichever is the earliest.

KSHITISH KUMAR, Under Secy.

The 9th December 2014

No.PFG(1073)/14-Ad.I—The President is pleased to appoint Ms. Anjuly Chib Duggal, IAS (PB:81) as Special Secretary in the Ministry of Corporate Affairs, with effect from the forenoon of 09th December, 2014.

KSHITISH KUMAR, Under Secy.

New Delhi, the 05th December, 2014

No.PFG(1067)/2014-Ad.I—The President is pleased to appoint Shri Ashish Kushwaha (ITS:2001) as Deputy Secretary in the Ministry of Corporate Affairs for a period of four years under the Central Staffing Scheme with effect from the forenoon of 03rd December, 2014 and up to 02nd December, 2018 or until further orders, whichever event takes place earlier.

RAVI VAZIRANI, Under Secy.

MINISTRY OF CHEMICALS & FERTILIZERS
(DEPARTMENT OF FERTILIZERS)

New Delhi, the 22nd July 2014

No. A-19011/07/2014-HR-II—Shri Anilkumar V. Patil is hereby taken on the strength of Department of Fertilizers as Director in the Pay Band—4 (Rs.37400-67000/-) with Grade Pay of Rs. 8700/- in the combined cadre of the Ministry of Chemicals & Fertilizers w.e.f. 16.07.2014 (A/N) in pursuance of the DoPT's Order No. 3/1/2014-CS-I (D) dated 03.07.2014.

YASHPAL ARORA, Under Secy.

—
The 26th August 2014

No. A-19011/09/2014-HR-II—Consequent upon his promotion to the Selection Grade (Deputy Secretary) and subsequent transfer from D/o Expenditure, Shri Satya Mohan Gupta, Under Secretary is hereby taken on the strength of Department of Fertilizers as Deputy Secretary in the Pay Band—3 (Rs.15600-39100/-) with Grade Pay of Rs. 7600/- in the combined cadre of the Ministry of Chemicals & Fertilizers w.e.f. 14.08.2014 (F/N) in pursuance of the DoPT's Order No. 4/2/2014-CS-I (D) dated 31.07.2014.

YASHPAL ARORA, Under Secy.

—
New Delhi, the 16th October 2014

No. A-12011/04/2011-HR.II—The President is pleased to appoint Shri Gobinda Gopal Mitra (ICAS:95) to the post of Director in the office of Fertilizers Industry Coordination Committee, an attached office of Department of Fertilizers, with immediate effect by re-designating the post of Joint Director as Director (CE) for the balance period of his tenure which would be 08.12.2016 or until further orders, whichever is earlier.

SANJAY SRIVASTAVA, Under Secy.

—
The 5th November 2014

No. A-19011/04/2014-HR-II—In pursuance of Department of Personnel and Training's Order No. 36/38/2014-EO (SM.I) dated 03.11.2014, the President is pleased to appoint Shri Rajiv Yadav, IAS (AM:81)) as Special Secretary and Financial Adviser in the Department of Fertilizers, Ministry of Chemical and Fertilizers w.e.f. 16.10.2014 (AN) by temporarily upgrading the post held by him.

SANJAY SRIVASTAVA, Under Secy.

—
The 7th November 2014

No. A-19011/11/2014-HR-II. In pursuance of Department of Personnel and Training's Order No. 33/5/2014-EO (SM.I) (17) dated 23.09.2014, the President is pleased to appoint Shri Heera Lal Samariya, IAS (AP:85)) to the post of Joint Secretary in the Department of Fertilizers in the pay band of Rs. 37,400 – 67,000/- (PB-4) plus the grade pay of Rs. 10,000/- w.e.f. 05.11.2014(F/N) for a period of five years, or until further orders, whichever is earlier, vice Shri Satish Chandra, IAS (AP:86), consequent upon his premature repatriation to his cadre w.e.f 13.06.2014.

SANJAY SRIVASTAVA, Under Secy.

—
The 28th November 2014

No. A-22011/05/2014-HR.II—The President is pleased to appoint Shri Yashpal Arora, Under Secretary (ad-hoc) as Under Secretary on regular basis against the Select List 2012 in the Department of Fertilizers w.e.f. 04.07.2014 (F/N) subject to the conditions contained in DoPT's Order No. 5/6/2013-CS.I(U) dated 04.07.2014.

SANJAY SRIVASTAVA, Under Secy.

No. A-22011/05/2014-HR.II The President is pleased to appoint Shri Pumzalal Pulamte, Under Secretary (ad-hoc) as Under Secretary on regular basis against the Select List 2012 in the Department of Fertilizers w.e.f. 04.07.2014 (F/N) subject to the conditions contained in DoPT's Order No. 5/6/2013-CS.I(U) dated 04.07.2014.

SANJAY SRIVASTAVA, Under Secy.

MINISTRY OF HEALTH & FAMILY WELFARE

New Delhi – 110 011, the 2nd December 2014

No. A-12025/21/2014-CHS-IV—On the recommendation of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Meenakshi Aggarwal to the post of Specialist Grade-II (Jr. Scale)(Microbiology) in the Non-Teaching Specialist Sub-Cadre of Central Health Services on probation with effect from the afternoon of the 14th October, 2014 and until further orders.

LALIT KUMAR, Under Secy.

MINISTRY OF AYURVEDA, YOGA & NATUROPATHY UNANI, SIDDHA AND HOMEOPATHY
(AYUSH)

New Delhi 110023, the 14th November 2014

No.A.19011/5/2010-E.II—Consequent upon his promotion to the post of Principal Chief Conservator of Forests, Government of Manipur in the Apex Scale of Rs. 80,000/- (Fixed) and also as a Head of Forest Force in Manipur, Shri Bala Prasad, IFS (MT-83), Joint Secretary, Ministry of AYUSH stands relieved of his duties in the Ministry of AYUSH w.e.f. the afternoon of 14th November, 2014.

CHANDRA SHEKHAR, Under Secy.

The 17th November 2014

No.A.20010/6/2012-E-II(AYUSH)—In pursuance of Department of Personnel & Training's communication No.33/7/2014-EO(SM-1) (18) dated 3rd November, 2014, the President is pleased to appoint Shri Jitendra Sharma, IFS (PB:84), Chief Executive Officer, National Medicinal Plants Board as Joint Secretary in the Ministry of AYUSH w.e.f. 14.11.2014 (Afternoon) for the balance period of his deputation tenure i.e. upto 07.10.2017, or until further Orders.

CHANDRA SHEKHAR, Under Secy.

The 21st November 2014

No.A.20010/6/2012-E-II(AYUSH)—In pursuance of Department of Personnel & Training's communication No.4/2/2014-CS-I(D)(Pt.) dated 3rd November, 2014, the President is pleased to appoint Sh. Anshuman Sharma, Deputy Secretary (Ad hoc), UPSC as Deputy Secretary (Ad hoc) in the Ministry of AYUSH w.e.f. 18.11.2014 (forenoon) until further orders.

CHANDRA SHEKHAR, Under Secy.

The 5th December 2014

No. A. 12011/2//2014-E-II(AYUSH)—In pursuance of Department of Personnel & Training OM No.4/16/2014-E.O.(MM-I) dated 27th November, 2014, the President is pleased to appoint Shri Navdeep Rinwa, IAS(UP:1999) as Private Secretary to the Minister of State (Independent Charge) for AYUSH (Shri Shripad Yesso Naik) in the Ministry of AYUSH on 'lateral shift' basis w.e.f. 10th November, 2014 and for balance period of his tenure of five years as Private Secretary (i.e. upto 04.09.2019) or on co-terminus basis with the Minister or till he ceases to function as Private Secretary to the Minister or until further orders, whichever event occurs the earliest.

CHANDRA SHEKHAR, Under Secy.

MINISTRY OF AGRICULTURE
(DEPARTMENT OF AGRICULTURE & COOPERATION)

New Delhi, the 15th December 2014

No. 4-2/2011-Extn.—The President is pleased to appoint Shri Sudhir Kumar to the post of Extension Officer, G.C.S., Group 'A' Gazetted, Non-Ministerial in the scale of pay of Rs.15600-39100 (PB-3) + Grade Pay of Rs. 5400/- in the Directorate of Extension, Department of Agriculture & Cooperation, on direct recruitment basis on the recommendations of the Union Public Service Commission, with effect from the forenoon of 05th December, 2014.

R.S.VERMA, Under Secy.

MINISTRY OF MINORITY AFFAIRS

New Delhi-110 001, the 12th December 2014

No. A-19011/93/2013-Estt. Consequent upon the approval of Appointments Committee of the Cabinet, vide Department of Personnel & Training's OM No. 4/22/2014-EO(SM.I) dated 29th October, 2014, for appointment of Dr. Lalit K. Panwar, IAS (RJ:79) as Secretary, Ministry of Tourism, the President is pleased to relieve Dr. Lalit K. Panwar, IAS (RJ:79) from Ministry of Minority Affairs w.e.f. 30th October, 2014 (A/N).

MOHD. AFZAL, Dir. (Admn.)

MINISTRY OF RAILWAYS

(RAILWAY BOARD)

New Delhi-110001, the 15th December 2014

No. ERB-I/2007/10/4—Shri Alok Johri, Member Mechanical, Railway Board and ex-officio Secretary to the Government of India in the Ministry of Railways retired from service with effect from the afternoon of 30.11.2014, on attaining the age of superannuation.

P. C. GAJBHIYE, Secy.
(Railway Board)

No. ERB-I/2007/10/4—The following officers of Railway Board retired from service on attaining the age of superannuation with effect from the afternoon of 30.11.2014:-

- | | | |
|------|---------------------------|---------------------------|
| i) | Shri V.K.Jain, | Additional Member(Works). |
| ii) | Shri Madan Lal, | Director. |
| iii) | Shri. Satish Kumar, | Section Officer. |
| iv) | Shri Subhash Banerjee, | Section Officer. |
| v) | Shri Jai Singh Pal Singh, | Section Officer (Hindi). |
| vi) | Smt. Shashi Anand, | Section Officer. |
| vii) | Smt. Shobha Pasricha, | Private Secretary. |

P. C. GAJBHIYE, Secy.
(Railway Board)

MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYMENT

New Delhi, the 10th December 2014

No. A-31011/05/2013-CLS.I—The President is pleased to appoint the following Junior Time Scale (JTS) Officers of Central Labour Service (CLS) on promotion as regular Senior Time Scale (STS) Officers in the pay Scale corresponding to PB-3 (Rs. 15,600 -39,100) with Grade Pay of Rs. 6600/- with effect from the date as indicated against each:-

SL. NO.	NAME OF OFFICERS (S/Sh./Smt./Kum.)	DATE OF PROMOTION
1.	Amarkant Goyal	24.03.2014 (FN)
2.	T. K. Panda,	04.03.2014 (FN)

SL. NO.	NAME OF OFFICERS (S/Sh./Smt./Kum.)	DATE OF PROMOTION
3.	P. K. Lukas	07.03.2014 (FN)
4.	N. M. Shetty	06.03.2014 (FN)
5.	S. Chakraborti	10.03.2014 (AN)
6.	P. Ganesan	28.03.2014 (FN)
7.	B. R. Khemundu	07.03.2014 (FN)
8.	P. S. Phoughat	04.04.2014 (FN)
9.	Vasdevi Kundnaney	01.04.2014 (FN)
10.	A. K. Srivastava	11.03.2014 (FN)
11.	Raja Ram	07.03.2014 (FN)
12.	N. Krishna Rao	06.03.2014 (FN)
13.	M. S. Meena	04.03.2014 (AN)
14.	A. K. Trehan	08.03.2014 (FN)
15.	G. S. Doraiburu	05.03.2014 (AN)
16.	Sunil Kumar	25.03.2014 (AN)
17.	R. K. Agrawal	07.03.2014 (FN)

2. The promotion of the above mentioned Officers to the STS Grade will be subjected to the outcome of the Court Case Nos. OA No. 55/2012 filed by Sh. B B Singh Samantha (since retired) before the Hon'ble CAT, Guwahati and W.P.C.T. No. 15/2012 filed by Shri Ajay Kumar (since retired) before the Hon'ble High Court, Calcutta.

S K SINGH, Under Secy.

मुद्रण निदेशालय द्वारा, भारत सरकार मुद्रणालय, एन.आई.टी. फरीदाबाद में
मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2015
PRINTED BY DIRECTORATE OF PRINTING AT GOVERNMENT OF INDIA PRESS, N.I.T.
FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2015

www.dop.nic.in